



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 01.12.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

ए0एच0टी0यू0 टीम द्वारा जनपद खीरी में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं/बालिकाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा तथा भेदभाव उन्मूलन के विषय एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के सम्बन्ध में जागरुक किया गया



उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप दिनांक 25.11.2022 से दिनांक 10.12.2022 (अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस) तक महिलाओं के विरुद्ध हिंसा तथा भेदभाव उन्मूलन के विषय में जागरुकता बढ़ाने तथा महिलाओं के समग्र विकास तथा सशक्तीकरण के साथ-साथ महिलाओं तथा बालिकाओं के बुनियादी मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता हेतु 16 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 01.12.2022 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में ए0एच0टी0यू0 प्रभारी, नि0 जैनेन्द्र कुमार; का0 राजेश कुमार; म0का0 नीरज गिल; म0का0 सीमा सिंह चौहान व चाइल्ड लाइन सदस्य विभा सक्सेना; रजनी, ग्राम प्रधान महावीर वर्मा, ग्राम पंचायत सहायक अखिल वर्मा, बीडीसी बृजेन्द्र कुमार वर्मा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती नीलम वर्मा के साथ-साथ गांव के सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में ग्राम सभा मिर्जापुर, बेहजम आदि स्थान पर जन जागरुकता अभियान चलाया गया, जिसमें ग्राम समाज की महिलाओं/बालिकाओं को उनके अधिकारों के सम्बन्ध में जागरुक किया गया।

महिला थाना द्वारा जनपद खीरी में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं/बालिकाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा तथा भेदभाव उन्मूलन के विषय एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के सम्बन्ध में जागरुक किया गया



उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरूप दिनांक 25.11.2022 से दिनांक 10.12.2022 (अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस) तक महिलाओं के विरुद्ध हिंसा तथा भेदभाव उन्मूलन के विषय में जागरुकता बढ़ाने तथा महिलाओं के समग्र विकास तथा सशक्तीकरण के साथ-साथ महिलाओं तथा बालिकाओं के बुनियादी मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता हेतु 16 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 01.12.2022 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में महिला थाना प्रभारी, म० नि० शकुंतला उपाध्याय; म०का० नीलम सांगवान; म०का० रेनू सिंह; म०का० ज्योति; म०का० सृष्टि व म०का० प्रीतू यादव के साथ-साथ गांव के सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में मलिन बस्ती देवकली रोड, स्टार भट्टा रामापुर आदि स्थान पर जन जागरुकता अभियान चलाया गया, जिसमें ग्राम समाज की महिलाओं/बालिकाओं को उनके अधिकारों के सम्बन्ध में जागरुक किया गया।

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, वारंटी अभियुक्त प्रदीप पुत्र राजकरन को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.12.2022 को थाना नीमगांव पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त प्रदीप पुत्र राजकरन नि० ग्राम मालीपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का विवरण-

प्रदीप पुत्र राजकरन नि० ग्राम मालीपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० शिव कुमार सिंह
- 2-का० परवीन कुमार बाबी
- 3-का० जतिन कुमार

थाना खीरी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त अमीन उर्फ सलमान पुत्र सलीम को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों की बिक्री/निर्माण/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.12.2022 को थाना खीरी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त अमीन उर्फ सलमान पुत्र सलीम नि० थाना ईसानगर जनपद खीरी को 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसका चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

581/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० प्रेमचन्द सिंह थाना व जनपद खीरी

उ०नि० जितेन्द्र बहादुर सिंह थाना व जनपद खीरी

हे०कां० विनोद कुमार

कां० अंकित

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

- थाना संपूर्णनगर पुलिस द्वारा, अ0सं0 75/12 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित वारंटी अभियुक्त परमजीत सिंह पुत्र गुरूमुख सिंह निवासी बाजारघाट थाना हजारा जनपद पीलीभीत को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 305 लीटर अवैध शराब बरामद कर 23 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **305 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **02 शराब भट्टी** बरामद कर **23 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **22 अभियोग** पंजीकृत किए गए।